



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 765]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 2016/कार्तिक 11, 1938

No. 765]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2016/KARTIKA 11, 1938

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2016

सा.का.नि 1031(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन (सिविल) के पद के लिए डाक विभाग सिविल विंग में कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन (सिविल) नियम, 1995 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग (सिविल विंग में कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन (सिविल) संशोधन नियम, 2016 है।
- (2) ये नियम इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. डाक विभाग (सिविल विंग में कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन (सिविल) नियम, 1995 की अनुसूची में कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के अंतर्गत :

- (क) (i) स्तंभ 11 के अधीन की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—
(ii) 'रोजगार कार्यालय के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 95%;

(ii) सिविल विंग के बहुकार्य कर्मचारिवृंद में से प्रोन्नति द्वारा 5%, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा;”

(ख) स्तंभ 12 में, उप-शीर्ष प्रोन्नति के अंतर्गत की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्

“सिविल विंग के बहुकार्य कर्मचारिवृंद में से, जिन्होंने मैट्रिक अथवा इसके समतुल्य परीक्षा पास की हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से दो वर्ष की अवधि के पाठ्यक्रम में ड्राफ्ट्समैन (सिविल) में प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा हो और जिन्होंने विभाग के सिविल विंग में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो।”

[सं. 5-6/2013(सीईएनडी)]

नीरज कुमार, मुख्य इंजीनियर (सिविल)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 528, तारीख 02 दिसम्बर, 1995 के अधीन प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2016

G.S.R. 1031(E).—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, to amend the Department of Posts Junior Engineer (Civil) in Civil Wing Rules 1995 for the post of Junior Draughtsman (Civil), namely :-

1. Short title and commencement:—

- (1) These rules may be called the Department of Posts Junior Draughtsman (Civil) in Civil Wing, Amendment Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Department of Posts Junior Engineer (Civil) in Civil Wing Rules, 1995, against the post of Junior Draughtsman (Civil).

(a) (i) in column 11 for the entries the following entries shall be substituted, namely:-

- (i) “95% by direct recruitment through Employment Exchange;
- (ii) 5% by promotion from amongst the Multi Tasking Staff of the Civil Wing failing which by direct recruitment”;

(b) in column 12, for the entries against the sub heading promotion, the following entries shall be substituted, namely :-

“From amongst the Multi Tasking Staff of Civil Wing who have passed Matriculation examination or equivalent with certificate or Diploma in Draughtsman (Civil) of two years duration course from a recognized institute and having ten years of regular service in the Civil Wing of the Department.”

[No. 5-6/2013(CEND)]

NIRAJ KUMAR, Chief Engineer (Civil)

Note : The Principal Rules were published in the Gazette of India vide number GSR 528, dated the 2nd December, 1995.